



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 325]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 16, 1984/ श्रावण 25, 1906

No. 325]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 1984/SRAVANA 25, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1984

सा. का. नि. 611 (अ) :—केंद्रीय सरकार महानत्त न्याय  
अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उप-धारा  
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तृतीकोरिन पत्तन  
के न्यासी मंडल द्वारा निर्मित परिशिष्ट में यथा संलग्न तृतीकोरिन  
पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन विनि-  
यम, 1984 को अनुमोदित करती है।

2. सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की  
तारीख से लागू होगी।

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू./पीइटी-26/80]

पी. बी. राव, संयुक्त सचिव

अधिसूचना

तृतीकोरिन पत्तन न्याय

प्रमुख पत्तन न्याय अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा  
28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तृतीकोरिन पत्तन

न्यासी बोर्ड एतद्वारा कथित अधिनियम की धारा 124 की उप-  
धारा (1) के अधीन, बराबर कि केंद्रीय सरकार इसका अनुमोदन  
करे, तृतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि) विनि-  
यम, 1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम  
बनाता है :—

1. संक्षेप में शीर्ष और प्रारम्भ (1) ये विनियम तृतीको-  
रिन पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि)  
द्वितीय संशोधन विनियम, 1984 कहलाएंगे।

2. तृतीकोरिन पत्तन कर्मचारी (सामान्य भविष्य निधि)  
विनियम, 1979 में :—

1. विधि 4 के उप-विनियम (4) को निकाल दिया  
जाएगा और वर्तमान उप-विनियम (5) और  
(6) का नम्बर बदल कर क्रमशः (4) और (5)  
कर दिया जाएगा।

2. विनियम 17 के उप-विनियम (2) के प्रथम परे  
को इस प्रकार पढ़ें :—

“अंशदाता की सेवा के 15 वर्ष पूरे हो जाने के बाद  
अथवा अधिवर्षिता पर उसकी सेवा-निवृत्ति  
की तारीख से पहले उस वर्ष के भीतर, इसमें  
से जो भी पहले हो, अंशदान और उस पर

भ्याज की राशि में से जो अंशदाता के खाते में पड़ी हो, विधि को निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक प्रयोजनों के लिए ,”

3. विनियम 17 के नीचे टिप्पणी 1 में “विनियम 16” शब्दों के स्थान पर “विनियम 17” शब्द रखे जाएंगे।
4. विनियम 17 के नीचे टिप्पणी 2 में “विनियम 16” शब्द के स्थान पर “विनियम 17” शब्द रखे जाएंगे।

टिप्पणी—अग्रसूचि विनियम अर्थात् :—

1. तूतीकोरिन पत्तन कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1979, दिनांक 16 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में जी. एम. आर. सं. 236 (ई) के रूप में प्रकाशित किए गए थे।
2. प्रथम संशोधन विनियम अर्थात् तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी सा. भ. वि. संशोधन विनियम, 1980, दिनांक 15 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में जी. एस. आर. सं. 771 के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

ह./-

अध्यक्ष,

तूतीकोरिन पत्तन न्यास।

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 1984

G.S.R. 611 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Amendment Regulations, 1984 made by the Board of Trustees for the Port of Tuticorin, as set out in the Schedule attached.

2. They shall come into force from the date of publication of this Notification in the official Gazette.

[F. No. PW/PET-26/80]

P. V. RAO, Jt. Secy.

### SCHEDULE

#### TUTICORIN PORT TRUST

#### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of

1963), the Board of Trustees of the Port of Tuticorin hereby makes the following regulations to amend the Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1979, subject to the approval of the Central Government under sub-section (1) of Section 124 of the said Act :—

- (1) Short title and commencement.—(1) These regulations may be called The Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Amendment Regulations, 1984.
- (2) In the Tuticorin Port Employees (General Provident Fund) Regulations, 1979.
  - (i) sub-regulation (4) of Regulation 4 shall be deleted and the existing sub-regulations (5) and (6) shall be re-numbered as (4) and (5) respectively.
  - (ii) In sub-regulation (2) of Regulation 17, the words, “On superannuation whichever is earlier from the amount” shall be inserted between the words “before the date of his retirement” and “of subscription and interest thereon”
  - (iii) In Note I below Regulation 17, the words and figures “Regulation 16” shall be substituted by the words and figures “Regulation 17”.
  - (iv) In Note 2 below Regulation 17, the words and figures “Regulation 16” shall be substituted by the words and figures “Regulation 17”.

NOTE : The Principal Regulations, namely,

- (1) the Tuticorin Port Employees General Provident Fund Regulations, 1979, were published, vide GSR No. 236(E) in the Gazette of India dated the 16th March, 1979.
- (2) The first amendment Regulations, namely, the Tuticorin Port Trust Employees G.P.F. Amendment Regulations, 1980, were published vide GSR No. 771 in the Gazette of India, dated the 15th August, 1981.

Sd/-

CHAIRMAN

TUTICORIN PORT TRUST